



Bid Number/बोली क्रमांक (बिड संख्या):
GEM/2024/B/5227336
Dated/दिनांक : 08-08-2024

Bid Document/ बिड दस्तावेज़

| Bid Details/बिड विवरण | |
|---|--|
| Bid End Date/Time/बिड बंद होने की तारीख/समय | 29-08-2024 15:00:00 |
| Bid Opening Date/Time/बिड खुलने की तारीख/समय | 29-08-2024 15:30:00 |
| Bid Offer Validity (From End Date)/बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से) | 180 (Days) |
| Ministry/State Name/मंत्रालय/राज्य का नाम | Ministry Of Defence |
| Department Name/विभाग का नाम | Department Of Defence Production |
| Organisation Name/संगठन का नाम | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| Office Name/कार्यालय का नाम | ***** |
| Total Quantity/कुल मात्रा | 19851 |
| Item Category/मद केटेगरी | Title1 , Title2 , Title3 , Title4 , Title5 , Title6 , Title7 , Title8 , Title9 , Title10 , Title11 , Title12 , Title13 , Title14 , Title15 , Title16 , Title17 , Title18 , Title19 , Title20 , Title21 , Title22 , Title23 , Title24 , Title25 , Title26 , Title27 , Title28 , Title29 , Title30 , Title31 , Title32 , Title33 , Title34 , Title35 , Title36 , Title37 , Title38 , Title39 , Title40 , Title41 , Title42 , Title43 , Title44 , Title45 |
| BOQ Title/बीओक्यू शीर्षक | Procurement of Tools |
| Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)/बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का) | 11 Lakh (s) |
| MSE Exemption for Turnover/टर्नओवर के लिए एमएसई को छूट प्राप्त है | Yes |
| Startup Exemption for Turnover/ टर्नओवर के लिए स्टार्टअप को छूट प्राप्त है | Yes |
| Document required from seller/विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़ | Bidder Turnover, Additional Doc 1 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer |
| Bid to RA enabled/बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया | No |
| ITC available to buyer/क्रिता के लिए उपलब्ध आईटीसी | Yes |

| Bid Details/बिड विवरण | |
|---|--|
| Type of Bid/बिड का प्रकार | Two Packet Bid |
| Primary product category | Title1 |
| Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation/तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय | 2 Days |
| Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM) | No |
| Estimated Bid Value/अनुमानित बिड मूल्य | 3768650 |
| Payment Timelines | Payments shall be made to the Seller within 15 days of issue of consignee receipt-cum-acceptance certificate (CRAC) and on-line submission of bills (This is in supersession of 10 days time as provided in clause 12 of GeM GTC) |
| Evaluation Method/मूल्यांकन पद्धति | Item wise evaluation/ |

EMD Detail/ईएमडी विवरण

| | |
|--|---------------------|
| Advisory Bank/एडवाइजरी बैंक | State Bank of India |
| Schedule 1 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 2276 |
| Schedule 2 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 1779 |
| Schedule 3 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 118 |
| Schedule 4 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 445 |
| Schedule 5 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 538 |
| Schedule 6 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 40 |
| Schedule 7 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 28 |
| Schedule 8 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 57 |
| Schedule 9 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 37 |
| Schedule 10 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 58 |
| Schedule 11 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 175 |
| Schedule 12 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 302 |
| Schedule 13 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 30 |
| Schedule 14 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 31 |
| Schedule 15 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 280 |

| | |
|--|-------|
| Schedule 16 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 34 |
| Schedule 17 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 53 |
| Schedule 18 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 22 |
| Schedule 19 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 14 |
| Schedule 20 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 21 |
| Schedule 21 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 44 |
| Schedule 22 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 12 |
| Schedule 23 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 34 |
| Schedule 24 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 43 |
| Schedule 25 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 5 |
| Schedule 26 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 341 |
| Schedule 27 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 224 |
| Schedule 28 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 112 |
| Schedule 29 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 99 |
| Schedule 30 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 136 |
| Schedule 31 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 38 |
| Schedule 32 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 106 |
| Schedule 33 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 18446 |
| Schedule 34 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 7379 |
| Schedule 35 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 5534 |
| Schedule 36 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 3142 |
| Schedule 37 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 745 |
| Schedule 38 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 216 |
| Schedule 39 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 162 |
| Schedule 40 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 40 |
| Schedule 41 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 110 |
| Schedule 42 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 371 |
| Schedule 43 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 19 |
| Schedule 44 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 1439 |

| | |
|--|----|
| Schedule 45 EMD Amount/ईएमडी राशि (In INR) | 86 |
|--|----|

ePBG Detail/ईपीबीजी विवरण

| | |
|--|---------------------|
| Advisory Bank/एडवाइजरी बैंक | State Bank of India |
| ePBG Percentage(%) / ईपीबीजी प्रतिशत (%) | 5.00 |
| Duration of ePBG required (Months) / ईपीबीजी की अपेक्षित अवधि (महीने). | 14 |

(a). EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy./जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित केटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हैं। एमएसई केटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।

(b). The EMD Amount will be applicable for each schedule/group selected during Bid creation.

(c). EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable./ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए।

Beneficiary/लाभार्थी :

company
Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Dockyard Road, Mumbai-400010
(Mazagon Dock Shipbuilders Limited)

Splitting/विभाजन

Bid splitting not applied/बोली विभाजन लागू नहीं किया गया.

MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता

| | |
|--|-----|
| MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता | Yes |
|--|-----|

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता

| | |
|---|-----|
| MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता | Yes |
|---|-----|

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest definitions under MSME rules, the bidder shall be exempted from the requirement of "Bidder Turnover" criteria and "Experience Criteria" subject to meeting of quality and technical specifications. If the bidder is OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. In case any bidder is seeking exemption from Turnover / Experience Criteria, the supporting documents to prove his eligibility

for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer.

2. If the bidder is a Startup, the bidder shall be exempted from the requirement of "Bidder Turnover" criteria and "Experience Criteria" subject to their meeting of quality and technical specifications. If the bidder is OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. In case any bidder is seeking exemption from Turnover / Experience Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer.

3. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

4. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore): Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

5. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

6. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

Evaluation Method (Item Wise Evaluation Method)

Contract will be awarded schedulewise and the determination of L1 will be done separately for each schedule. The details of item-consignee combination covered under each schedule are as under:

| Evaluation Schedules | Estimated Value | Item/Category | Quantity |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| Schedule 1 | 189664 | Title1 | 1600 |

| | | | |
|-------------|---------|---------|------|
| Schedule 2 | 148273 | Title2 | 220 |
| Schedule 3 | 9819 | Title3 | 60 |
| Schedule 4 | 37111 | Title4 | 100 |
| Schedule 5 | 44842 | Title5 | 50 |
| Schedule 6 | 3346 | Title6 | 100 |
| Schedule 7 | 2357 | Title7 | 50 |
| Schedule 8 | 4713 | Title8 | 100 |
| Schedule 9 | 3109 | Title9 | 100 |
| Schedule 10 | 4840 | Title10 | 500 |
| Schedule 11 | 14560 | Title11 | 2000 |
| Schedule 12 | 25166 | Title12 | 50 |
| Schedule 13 | 2525 | Title13 | 25 |
| Schedule 14 | 2590 | Title14 | 20 |
| Schedule 15 | 23315 | Title15 | 45 |
| Schedule 16 | 2830 | Title16 | 200 |
| Schedule 17 | 4395 | Title17 | 160 |
| Schedule 18 | 1863 | Title18 | 60 |
| Schedule 19 | 1200 | Title19 | 100 |
| Schedule 20 | 1747 | Title20 | 100 |
| Schedule 21 | 3650 | Title21 | 10 |
| Schedule 22 | 1026 | Title22 | 10 |
| Schedule 23 | 2850 | Title23 | 10 |
| Schedule 24 | 3585 | Title24 | 10 |
| Schedule 25 | 448 | Title25 | 1 |
| Schedule 26 | 28454 | Title26 | 50 |
| Schedule 27 | 18700 | Title27 | 300 |
| Schedule 28 | 9360 | Title28 | 1000 |
| Schedule 29 | 8285 | Title29 | 500 |
| Schedule 30 | 11320 | Title30 | 500 |
| Schedule 31 | 3192 | Title31 | 200 |
| Schedule 32 | 8824 | Title32 | 200 |
| Schedule 33 | 1537200 | Title33 | 2500 |
| Schedule 34 | 614875 | Title34 | 2500 |
| Schedule 35 | 461150 | Title35 | 2500 |
| Schedule 36 | 261840 | Title36 | 2000 |

| | | | |
|-------------|--------|---------|-----|
| Schedule 37 | 62050 | Title37 | 500 |
| Schedule 38 | 18000 | Title38 | 200 |
| Schedule 39 | 13465 | Title39 | 500 |
| Schedule 40 | 3366 | Title40 | 100 |
| Schedule 41 | 9190 | Title41 | 60 |
| Schedule 42 | 30915 | Title42 | 250 |
| Schedule 43 | 1555 | Title43 | 20 |
| Schedule 44 | 119901 | Title44 | 260 |
| Schedule 45 | 7184 | Title45 | 30 |

Title1

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| | |
|--|---|
| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 1600 | 45 |

Title2

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|--|---|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 220 | 45 |

Title3

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 60 | 45 |

Title4

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 100 | 45 |

Title5

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 50 | 45 |

Title6

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 100 | 45 |

Title7

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 50 | 45 |

Title8

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 100 | 45 |

Title9

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 100 | 45 |

Title10

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 500 | 45 |

Title11

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 2000 | 45 |

Title12

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| | |
|--|---|
| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 50 | 45 |

Title13

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| | |
|--|---|
| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 25 | 45 |

Title14

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| | |
|--|---|
| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 20 | 45 |

Title15

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|--|---|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 45 | 45 |

Title16

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 200 | 45 |

Title17

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 160 | 45 |

Title18

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 60 | 45 |

Title19

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 100 | 45 |

Title20

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 100 | 45 |

Title21

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 10 | 45 |

Title22

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 10 | 45 |

Title23

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 10 | 45 |

Title24

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 10 | 45 |

Title25

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| | |
|--|---|
| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 1 | 45 |

Title26

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| | |
|--|---|
| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 50 | 45 |

Title27

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| | |
|--|---|
| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 300 | 45 |

Title28

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|--|---|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 1000 | 45 |

Title29

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 500 | 45 |

Title30

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 500 | 45 |

Title31

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 200 | 45 |

Title32

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 200 | 45 |

Title33

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 2500 | 45 |

Title34

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 2500 | 45 |

Title35

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 2500 | 45 |

Title36

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 2000 | 45 |

Title37

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 500 | 45 |

Title38

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| | |
|--|---|
| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 200 | 45 |

Title39

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| | |
|--|---|
| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 500 | 45 |

Title40

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| | |
|--|---|
| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 100 | 45 |

Title41

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|--|---|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 60 | 45 |

Title42

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 250 | 45 |

Title43

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 20 | 45 |

Title44

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 260 | 45 |

Title45

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

| ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट | ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट |
|---------------------------------------|--|
| 100% | 100% |

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Mumbai | 30 | 45 |

Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions/क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें**1. Generic**

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 50 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity by up to 50% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. Bidders are bound to accept the orders accordingly.

2. Generic

Bidders are advised to check applicable GST on their own before quoting. Buyer will not take any responsibility in this regards. GST reimbursement will be as per actuals or as per applicable rates (whichever is lower), subject to the maximum of quoted GST %.

3. Generic

Bidder shall submit the following documents along with their bid for Vendor Code Creation:

- Copy of PAN Card.
- Copy of GSTIN.
- Copy of Cancelled Cheque.
- Copy of EFT Mandate duly certified by Bank.

4. Generic

While generating invoice in GeM portal, the seller must upload scanned copy of GST invoice and the screenshot of GST portal confirming payment of GST.

5. Scope of Supply

Scope of supply (Bid price to include all cost components) : Only supply of Goods

6. Turnover

Bidder Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

7. **Warranty**

Warranty period of the supplied products shall be 1 years from the date of final acceptance of goods or after completion of installation, commissioning & testing of goods (if included in the scope of supply), at consignee location. OEM Warranty certificates must be submitted by Successful Bidder at the time of delivery of Goods. The seller should guarantee the rectification of goods in case of any break down during the guarantee period. Seller should have well established Installation, Commissioning, Training, Troubleshooting and Maintenance Service group in INDIA for attending the after sales service. Details of Service Centres near consignee destinations are to be uploaded along with the bid.

8. **Forms of EMD and PBG**

Successful Bidder can submit the Performance Security in the form of Payment online through RTGS / internet banking also (besides PBG which is allowed as per GeM GTC). On-line payment shall be in Beneficiary name

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

Account No.

10005255246

IFSC Code

SBIN0009054

Bank Name

STATE BANK OF INDIA

Branch address

MAZAGON BRANCH, MUMBAI-400010

. Successful Bidder to indicate Contract number and name of Seller entity in the transaction details field at the time of on-line transfer. Bidder has to upload scanned copy / proof of the Online Payment Transfer in place of PBG within 15 days of award of contract.

9. **Buyer Added Bid Specific ATC**

Buyer Added text based ATC clauses

Procurement of Tools

Additional Terms & Conditions (ATC)

GeM Tender GEM/2024/B/5227336

1. **Bid Rejection Criteria:**

(a) Categorical rejection criteria: The following conditions / deviations are non-negotiable and therefore any bid falling under these conditions / deviations shall be summarily rejected. Bidders to note that they shall not be provided any opportunity to rectify these conditions / deviations post Part-I bid opening:

(i) Bids received after tender closing date and time.

(ii) Bids received other than GeM portal.

(iii) Bidders who are debarred under PPP MII order 2017, GeM, CPPP & MDL.

(b) Liable rejection criteria: Non-compliance/non-acceptance to any of the terms and conditions of the tender other than clause mentioned under loading criteria shall render the bid liable for rejection:

(i) Bidders are required to submit the shortfall documents / clarifications within the duration / date stipulated by MDL failing which their bids will be liable for rejection.

(ii) Bidder to note that the shortfall information/documents will be sought only in case of historical documents which pre-existed at the time of the tender opening i.e. submitted along with original bid and which have not undergone change since then.

(iii) Bids of 'non-Class I' or 'non- Class -II (i.e. who do not meet the requirement of minimum local content) local suppliers' are liable for rejection.

(iv) Bids received without Integrity Pact duly filled & signed by the bidder on each page.

2. Pre-Qualification Criteria:

i) The average annual financial turnover of 'The bidder' during the last three years, ending 31st March (or any other year ending followed in relevant country) of the previous financial year excluding the calendar year of tendering should be at least INR 11 Lakhs as per the annual report (audited balance sheet and profit and loss account) of the relevant period, duly authenticated by a Chartered Accountant/ Cost Accountant in India or equivalent in relevant countries.

ii) Bidders Shop and establishment registration certificate or registration certificate from registrar of firms or certificate of incorporation from Registrar of Companies. (Not required for permanent registered vendors with MDL)

3. Delivery Period: On placement of contract, Material delivery shall be completed fully/progressively within 45 days from date of placement of contract.

DELIVERY: Shall be at MDL GRS/Common Stock stores, Mazagon Dock Shipbuilders Ltd, Mumbai i 10. Contact no 02223763427 materials shall be delivered within 45 days from date of placement of order. The Successful bidder(s) shall arrange to dispatch of goods by appropriate Rail / Road /Air / Sea mode as per the order to MDL stores on working days (Monday to Friday) between 8.00 hrs to 15.00 hrs (Lunch Time 11.30 to 12.00 hrs). In case truck / tempo reach our yard beyond above time the same may be retained over night at your risk & cost.

The following documents are mandatorily to be submitted along with the consignment:

(i) Delivery Challan

(ii) Tax Invoice

(iii) Purchase Order copy and Amendment copy if applicable

(iv) Guarantee/Warranty Certificate on company letter head

(v) Loading: Loading and Unloading at yard will be under the scope of the supplier.

4. Warranty/Guarantee:

The material supplied shall be guaranteed for minimum 12 months from the date of receipt and acceptance of material by MDL. The supplier cannot absolve their responsibility for warranty of material even though it is inspected & approved by inspection authorities. If the defects are not remedied within a reasonable / stipulated time, MDL may proceed to rectify the defects at the supplier's risk & cost, but without prejudice to MDL rights under the contract. The supplier will have to replace rejected / bad material during guarantee period at no extra cost to MDL.

5. Inspection:

Receipt Inspection: MDL inspection dept shall carry out necessary inspection of the items on receipt of item at MDL stores. Any objection raised by MDL inspection dept against quality of materials or workmanship shall be satisfactorily corrected by the Contractor at his expense including replacement as may be required within shortest possible time within 30 days. Items damaged during transit shall also be rectified/replaced by the Contractor within shortest possible time. Goods accepted by the purchaser at the initial and final inspections, in terms of the contract, shall in no way dilute the purchaser's right to reject them later, if found deficient in terms of the warranty clause of the contract.

6. BIDDER HAS TO GIVE CONFIRMATION WHETHER BIDDER IS A MANUFACTURER OF OFFERED PRODUCT OR NOT.

Bidder has to submit the confirmation on the above at the time of Bid submission.

Disclaimer/अस्वीकरण

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

[This Bid is also governed by the General Terms and Conditions/ यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है](#)

In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws./जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्यवाई

का आधार होगा।

---Thank You/धन्यवाद---